

## जल संसाधन लम्बे समय के लिए सुरक्षित रहेंगे

परमार्थ सेवा संस्था ने उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में पानी पंचायत का गठन किया और महिला को जल सस्कर्ता अभियान से पीने के पानी और आजीविका के लिए पानी पर प्रशिक्षण दे कर एक निराला काम किया ! आज हर गाँव में जल सहेली ने पानी को गाँव वालों के लिए सुरक्षित करने के लिए एक माहौल तैयार कर लिया है जहाँ पंचायत जल सहेलीकी की बात पर सहमात है! जल सहेली नीले रंग की साडी पहन कर समारोह में उपस्थित होती है! उन का मानना है की एस ब्लू ब्रिगेड के काम की पहचान उन का इलाका ही नहीं पर देश और विदेश में रह रहे लोग उन की तरह काम कर के साथ देंगे ! जल सहेली सामाजिक भूमिकाये बदलने पर काम कर रही है सब से पहले उन्होंने अपने तो अपने इलाके में जल स्रोत कहा है यह जाना और उन स्रोतों को सब के लिए कैसे सुरक्षित कर सके एस की जानकारी ले रही है!



जेंडर वाटर बजट ट्रेनिंग में तीन जिलों से आये ५० महिलाये साथ मिल कर जाना की समुदाय के संसाधनों पर नियन्त्रण पाने के लिये जल प्रबन्धनयोजना में समुदाय के

लोगों की भागेदारी बढ़नी पड़ेगी तथा जल सहेली को महिलाओं को जल सुरक्षा योजना के लिए संघटित करना होगा। यह गतिविधि जल अधिकार एवं महिला अधिकार जागरूकता का निर्माण करेगा जिसमें सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, जानवरों के लिये चारा, बेहतर स्वच्छता सुविधा को बढ़त मिलेगी ! जल संसाधन खर्चने और संरक्षित करने में तथा सतत् जल प्रबन्धन प्रणाली महिला तथा पुरुषों के बराबर भागेदारी के लिए जल सुरक्षा योजना के लिये काम हो रहा है ।

प्रत्येक मनुष्यों को जीवन जीने के लिये स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है तथा इस पर सब का बराबर अधिकार होता है। इन बातों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन (1977), अन्तर्राष्ट्रीय जल तथा स्वच्छता दशक (1981-90) में जल तथा स्वच्छता के प्रबन्धन में महिला तथा पुरुषों के बराबर भागेदारी को प्रमाणित किया गया है। जल तथा वातावरण पर अन्तर्राष्ट्रीय दशक में जल प्रबन्ध तथा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को केन्द्र में रखा गया है। इसका जल तथा स्वच्छता पर पहुंच को मानव के मूल अधिकार के रूप घोषित किया गया है। महिलाओं की भागेदारी के साथ जल प्रबन्धन के माध्यम से समुदाय भूमिकाये बदलने का एक प्रयास सफल हो रहा है! परमार्थ सेवा संस्था तथा वुमेन फीचर सर्विसेज जल सहेली के गठन के माध्यम से युवा महिलाओं को जल संगरक्षण के कार्यों से जोड़ा है! पानी तथा स्वच्छता के अधिकार, प्राकृतिक जल प्रबन्धन की जरूरत, वातावरण की वहन क्षमता, महिला व पानी का जुड़ाव तथा सामाजिक बदलाव के लिये नीतियों के हस्तक्षेप के लिये प्रशिक्षण देना परमार्थ सेवा संस्था योजना में हो रहा है ।

Contact : [parmarths@gmail.com](mailto:parmarths@gmail.com), 09415064471 Anil Singh, or Shivani Bhardwaj : 9810536717, [safp.sb@gmail.com](mailto:safp.sb@gmail.com)